

कनेक्ट करो 2021

प्रलिस के लयः

कनेक्ट करो 2021, वशव संसाधन संस्थान, सकल घरेलू उत्पाद, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल शहरी कायाकल्प और शहरी परवर्तन मशिन, स्वच्छ भारत मशिन (शहरी)

मेन्स के लयः

'कनेक्ट करो 2021' - टूवरड्स इक्वटिबल, सस्टेनेबल इंडयिन सटीज़' कार्यक्रम का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने 'कनेक्ट करो 2021' - टूवरड्स इक्वटिबल, सस्टेनेबल इंडयिन सटीज़' कार्यक्रम को संबोधति कयः।

प्रमुख बदि

परचयः

- यह वशव संसाधन संस्थान (WRI) भारत द्वारा आयोजति और मेज़बानी कयः जाने वाले कार्यक्रमों की एक वैश्वकि शृंखला का हसिसा है, ताक भारतीय और वैश्वकि नेताओं एवं अन्य हतिधारकों को एक साथ लाया जा सके, जो समावेशी, टकिाऊ और जलवायु समर्थति भारतीय शहरों को डज़ाइन करने के लयः प्रतबिद्ध हैं।
 - WRI India एक स्वतंत्र चैरटि संस्थान है, जो कानूनी रूप से 'इंडयः रसिोरसेज़ ट्रस्ट' के रूप में पंजीकृत है।
- 'कनेक्ट करो' वभिनि कषेत्रों से संबंधति प्रसुतकर्त्ताओं का अवलोकन करता है, जैसे-वायु प्रदूषण, वदियुत गतशीलता, शहरी नयोजन, शहरी जल लचीलापन, जलवायु शमन और सार्वजनकि पारगमन एवं दूसरों के बीच अपनी अंतरदृष्टि तथा शोध नषिकर्षों को साझा करना।

शहरों का महत्त्वः

जीडीपी में योगदानः

- वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय 'सकल घरेलू उत्पाद' (जीडीपी) का लगभग 70% शहरों से आणा क्योकि तेज़ी से शहरीकरण समूह की कषमता की सुवधि प्रदान करता है।
- वशव स्तर पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहर भारतीय शहरों की तुलना में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में पाँच गुना अधिक योगदान करते हैं।

कोवडि-19 का प्रभावः

- वर्ष 2030 तक भारत में शहरी आबादी लगभग दोगुनी होकर 630 मलियन हो जाणी और वकिस के इस स्तर को सुवधिजनक बनाने के लयः शहरी बुनयिदी ढाँचे को काफी उन्नत करने की आवश्यकता है तथा हमारे शहरों पर कोवडि-19 के प्रभाव ने इसे और भी महत्त्वपूर्ण बना दिया है।

जलवायु परवर्तन से लडने में सहायताः

- जैसा कि हाल ही में 'इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज' (आईपीसीसी) की रिपोर्ट बताती है, शहर जलवायु परवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावति होने के साथ-साथ प्रमुख योगदानकर्त्ता हैं, इसलयः ये शहर जलवायु परवर्तन के खलिाफ लडाई में प्रमुख स्थान रखते हैं।
 - यहाँ तक कसितत् वकिस लक्ष्य (एसडीजी)-11 में सार्वजनकि परविहन में नविश, हरति सार्वजनकि स्थान बनाना और शहरी नयोजन एवं प्रबंधन में भागीदारी तथा समावेशी तरीके से सुधार करना शामिल है।

सरकार की संबंधति पहलेंः

- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):** 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का शुभारंभ कयः गया जसिका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी कषेत्रों के लोगों को आवास उपलब्ध कराना है।
- अटल शहरी कायाकल्प और शहरी परवर्तन मशिन (AMRUT):** इसे वर्ष 2015 में शुरू कयः गया था। इसका उद्देश्य सभी के लयः बुनयिदी नागरकि सुवधिाएँ प्रदान करना है।
- क्लाइमेट स्मार्ट सटीज़ असेसमेंट फरेमवरकः** यह हमारे शहरों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, उन्हें लागू करने और प्रसारति करने की दशिा में उठाया गया कदम है जो हरति, टकिाऊ एवं लचीले शहरी आवासों के नरिमाण की दशिा में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की तुलना में

मानकों को निर्धारित करता है।

- **शहरी परिवहन योजना:** इस योजना के तहत 20,000 से अधिक बसों के लिये सार्वजनिक-नजी भागीदारी के माध्यम से वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराकर सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा।
- **जल जीवन मिशन (शहरी):** यह सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में पानी आपूर्तिकी सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने से संबंधित है।
- **सवच्छ भारत मिशन (शहरी):** इसे 2 अक्टूबर, 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना और देश में नगरपालिका ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना है।

नोट:

- **यूनेस्को का रचनात्मक शहरों का नेटवर्क (UCCN):**
 - इसे वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य रचनात्मकता एवं सांस्कृतिक उद्योगों (Creativity & Cultural Industries)को स्थानीय स्तर पर उनकी विकास योजनाओं के केंद्र में रखना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से सहयोग करना है।
 - UCCN में संगीत, कला, लोकशिल्प, डिज़ाइन, सनिमा, साहित्य तथा डिजिटल कला और पाक कला जैसे सात रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं।
- **वश्व शहर सांस्कृतिक मंच:**
 - इसे वर्ष 2012 में लंदन में स्थापित किया गया था। यह सदस्य शहरों के नीतिनिर्माताओं को अनुसंधान एवं खुफिया जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है और उनकी भविष्य की समृद्धि में संस्कृतिकी महत्त्वपूर्ण भूमिका की खोज करता है।
 - कोई भी भारतीय शहर इस फोरम का हिस्सा नहीं है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/connect-karo-2021>

